

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक 05-10-2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना गंज:- ग्राम बगी में दो पक्षों में आपसी विवाद के कारण एक-दूसरे पर फायरिंग व पथराव करने में बांछित चल रहा अभियुक्त 01 अहू नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार-

दिनांक 22-08-2021 को थाना गंज, रामपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम बगी में एक पक्ष के बिलाल की कार द्वारा दूसरे पक्ष के शैजी की मोटर साईकिल में साईड लगने के कारण दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी तथा दोनों पक्ष एक-दूसरे पर फायरिंग व पथराव करने लगे थे। इस सूचना पर थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा तुरन्त मौके पर पहुंचकर फायरिंग व पथराव कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया गया लेकिन दोनों ही पक्ष और अधिक उग्र हो गये थे। पुलिस द्वारा स्थिति पर काबू पाते हुए कुल 21 व्यक्तियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था अन्य व्यक्ति मौके से फरार हो गये थे। इस सम्बन्ध में थाना गंज पर मु.अ.सं.-290/2021 धारा 147,148,149,307,189,353,336,427 भादवि व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट बनाम मौ. यामीन उर्फ भूरा आदि 42 नामजद व कुछ अज्ञात पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 05-10-2021 को थाना गंज पुलिस द्वारा जाहिद पुत्र फरजन्द निवासी ग्राम बगी थाना गंज, रामपुर को बिलासपुर गेट चपटा कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अहू नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुआ। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जाहिद पुत्र फरजन्द निवासी ग्राम बगी थाना गंज, रामपुर।

बरामदगी-

गिरफ्तार अभियुक्त जाहिद के कब्जे से 01 अहू नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुआ।

कार्यवाही-

01-मु.अ.सं.-290/2021 धारा 147,148,149,307,189,353,336,427 भादवि व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट।

02-मु0अ0सं0-356/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

थाना मिलक:-दहेज हत्या में सास-ससुर गिरफ्तार-

राधेश्याम पुत्र मुरारीलाल निवासी ग्राम गंगापुर शर्की थाना मिलक, रामपुर आदि 06 अभियुक्तगण द्वारा वादी श्री विकास पुत्र गिरधारी लाल निवासी मौहल्ला ललितपुर थाना मीरगंज जनपद बरेली की बहन राखी (उम्र 25 वर्ष) को दहेज के लिए प्रताडित किया गया था एवं अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी थी तथा मांग पूरी न होने पर वादी की बहन राखी की हत्या कर दी गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना मिलक, रामपुर पर मु0अ0सं0-243/21 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा मृतका के पति/अभियुक्त राधेश्याम को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया

गया था। आज दिनांक 05-10-2021 को थाना मिलक पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहे मुरारीलाल पुत्र सकटू तथा श्रीमती बीना पत्नी मुरारीलाल निवासीगण ग्राम गंगापुर शर्की थाना मिलक, रामपुर को तीन बत्ती चौराहा कस्बा मिलक से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना खजुरिया:-40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 04-10-2021 को थाना खजुरिया, रामपुर पुलिस द्वारा सुनील कुमार पुत्र बुद्धसेन निवासी चन्दपुरा जदीद थाना खजुरिया, रामपुर को चन्दपुरा जदीद चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 40 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना खजुरिया पर मु0अ0सं0-135/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिविल लाइन:-02 अद् नाजायज चाकूओं के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 05-10-2021 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को पहाडी गेट से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01-01 अद् नाजायज चाकू बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01- इस्तेकार पुत्र चमन निवासी काशीराम कॉलोनी पहाडी गेट थाना सिविल लाइन, रामपुर।

02- बिट्टू पुत्र लईक निवासी काशीराम कॉलोनी पहाडी गेट थाना सिविल लाइन, रामपुर।

थाना पटवाई:-03 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 05-10-2021 को थाना पटवाई, रामपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का नाम व पता-

01- शरीफ पुत्र नासिर,

02- जुनैद खां पुत्र जलील खां,

03- भजनलाल पुत्र शंकरलाल निवासीगण ग्राम नदनऊ थाना पटवाई जनपद रामपुर।

थाना खजुरिया:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 05-10-2021 को थाना खजुरिया, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त आजम खां पुत्र अशरफ अली निवासी ग्राम खजुरिया कला थाना खजुरिया, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।